

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

EPFO 3.0: बैंक जैसी सुविधाओं से लैस होगा नया प्लेटफॉर्म, कर्मचारियों को मिलेगा जबरदस्त फायदा ।

Publisher

Published on 29 May 2025



क्लेम सेटलमेंट से लेकर एटीएम विदड्रॉल तक, EPFO में होने जा रहे हैं 5 बड़े बदलाव ।

नई दिल्ली (29 मई 2025): देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जल्द ही अपनी सर्विस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है । EPFO का अगला संस्करण EPFO 3.0 जून 2025 तक लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसमें बैंकिंग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी । इससे 9 करोड़ से अधिक PF सब्सक्राइबर्स को फायदा मिलेगा ।

EPFO 3.0 के 5 बड़े बदलाव जो बदल देंगे आपकी सुविधा का अनुभव

१. ऑटोमैटिक क्लेम सेटलमेंट

अब PF क्लेम के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं । नए सिस्टम में क्लेम प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमैटिक हो जाएगी, जिससे प्रोसेस तेज और पारदर्शी होगा ।

२. एटीएम से PF निकालने की सुविधा

बैंक अकाउंट की तरह अब एटीएम के जरिए सीधे पीएफ राशि निकालना संभव होगा । यह सुविधा करोड़ों कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देगी ।

३. डिजिटल करेक्शन की सुविधा

अब **PF अकाउंट** में दर्ज गलत जानकारी को घर बैठे **डिजिटल माध्यम** से सुधार सकेंगे। इसके लिए फॉर्म भरने या ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी।

४. सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का इंटीग्रेशन

EPFO अब **अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना** जैसी स्कीम्स को भी प्लेटफॉर्म में जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी लाभ मिलेगा।

५. केद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS)

अब पेंशनर्स को देश के किसी भी बैंक शाखा से पेंशन की राशि प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। यह व्यवस्था उन्हें कहीं भी रहने पर लाभ देने में सक्षम होगी।

ESIC भी करेगा हेल्थ सर्विसेज में सुधार

सिर्फ **EPFO** ही नहीं, बल्कि **ESIC** (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) भी **आयुष्मान भारत योजना** के तहत **सरकारी और निजी अस्पतालों** में मुफ्त इलाज की सुविधा जल्द उपलब्ध कराएगा। अभी यह संस्था **165 अस्पतालों** के माध्यम से 18 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.